



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2009/कार्तिक 8, 1931

No. 331]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2009/KARTIKA 8, 1931

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2009

सं. आरएस.1/4/2009-एल.—राष्ट्रपति द्वारा 29 अक्टूबर, 2009 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा राज्य सभा को बृहस्पतिवार, 19 नवम्बर, 2009 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमंत्रित करती हूँ।

29 अक्टूबर, 2009

प्रतिभा देवीसिंह पाटील
राष्ट्रपति।”

विवेक कुमार अग्निहोत्री, महासचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2009

No. RS 1/4/2009-L.—The following Order by the President dated the 29th October, 2009, is published for general information :—

“In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of Article 85 of the Constitution, I, hereby summon the Rajya Sabha to meet at New Delhi on Thursday, the 19th November, 2009 at 11.00 A.M.

October 29, 2009

PRATIBHA DEVISINGH PATIL
PRESIDENT.”

V.K. AGNIHOTRI, Secy.-General